



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 2003 (आषाढ़ 7, 1925)
No. 26] NEW DELHI SATURDAY, JUNE 28, 2003 (ASADHA 7, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2003

सं. ए-36011/23/01-प्रशासन—श्री जी. सिवाकुमार ने राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति के निदेशक (टी.आई.) के पद का कार्यभार, 5 जून 2003 के अवकाश से त्याग दिया है।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-36011/47/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री बी. डी. बेलवाल को 13 मई 2003 के पूर्वाह्न से को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब तक राष्ट्रपति चाहें, राष्ट्रपति सचिवालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशा.)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2003

सं. ए-19011/1/2003-प्रशा.-I—पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री डी. टी. जोसफ, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : ९८) ने 2 जून, 2003 के पूर्वाह्न से सचिव (समन्वय एवं लोक-शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय का पदभार छोड़ दिया है।

सुनील मिश्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2003

सं. ए-12022/2/2002-प्रशा.-IV—वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 26-05-2003 के आदेश सं. 13015/1/2002-आईईएस के अनुसरण में, भारतीय आर्थिक सेवा के एनएफएसजी अधिकारी श्री आशीष कुमार ने

लखनऊ स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय में दिनांक 28 मई, 2003 की पूर्वाह्न से निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० ए० रहीम, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जून 2003

सं० 12018/1/2003 भा०सां०से०—भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-5-2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

क्रम सं०	नाम	पदनाम एवं तैनाती का स्थान
1.	एल० एल० श्रीवास्तव, भा०सां०से० के० एस०टी०एस०	उपनिदेशक, रा० प्र०सर्व० सं०, क्षे०सं०प्र० सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2.	जॉय माटिन, भा०सां०से० के० जे०टी०एस०	सहायक निदेशक, रा० प्र०सर्व० सं०, क्षे०सं०प्र० कोजीकोड (आर०ओ०)।

भारती दत्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2003

फा० सं० ए-12026/1/2003-प्रशा० IV (वि० का०)—विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी, सुश्री अकाली बी० कांघे, सहायक (विधि) को दिनांक 14 मई 2003 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण होने पर विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण में सहायक पंजीकार के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

प्रकाश चन्द्रा, उप सचिव

फा० सं० ए-38012/2/2003-प्रशा०-IV (वि० का०)—विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष एवं सदस्यों की भर्ती, वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 के नियम 9 के अनुसार, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के अध्यक्ष, न्याय-भूति (सेवानिवृत्त) रविनन्दन सहाय, 65 वर्ष की आयु होने पर दिनांक 20 मई, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

प्रकाश चन्द्रा, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2003

सं० के० 13020/1/2003-यू० एस०-II—जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री बिज लाल बट्ट की 11 जून से 7 अगस्त, 2003 तक की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2003

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 2003 का 8 (फा० सं० ए-38012/6/2003-प्रशा०-2)—राष्ट्रपति, श्री वी० के० गुप्ता, उप आयुक्त, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 1-6-2003 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 04 जून 2003

सं० ए-12011/4/2003-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री रामदत्त मासीवाल को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-400-18300/- रु० के वेतनमान में दिनांक 8-5-2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक निदेशक (राजभाषा) नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2003

फा० सं० 6/36/00-डीआरटी (भाग)—राष्ट्रपति, डीआरटी, कोयम्बतूर के कार्यालय में 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त श्री आर० गणेश वोल्टेयर की प्रतिनियुक्ति की अवधि में दिनांक 7-12-2002 से 6-12-2003 तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वृद्धि करते हैं।

एस०पी०एस सांगवान, अवर सचिव

दिनांक 11 जून, 2003

फा०स० 28/2/95-डीआरटी—अधिवसिता की आयु पूरी करने के परिणामस्वरूप ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद में पीठासीन अधिकारी श्री ए०एस० चौधरी को दिनांक 17-6-2003 (अपराह्न) की सेवानिवृत्त होंगे। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ के पीठासीन अधिकारी श्री राम प्रकाश को दिनांक 17-6-2003 (अपराह्न) से अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए बिना तथा अगले आदेश होने तक अपने कार्य भार के साथ ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के पीठासीन अधिकारी के कार्य-भार को देखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

एस०पी०एस० सांगवान, अवर सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2002

सं० पी एफ जी (833)/2002-प्रशा०-I—इस विभाग के दिनांक 23-1-2002 के कार्यालय आदेश सं० ए-32011/1/2000-प्रशा०-II के द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद के पद से उनका स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री के० एल० कम्बोज ने 7-2-2002 के पूर्वा से अगले आदेशों तक कम्पनी कार्य विभाग के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2002

सं० 835/2002-प्रशा०-I—इस विभाग के दिनांक 23-1-2002 के कार्यालय आदेश सं० ए-32011/1/2000-प्रशा०-II द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, खालियर के पद से उनका स्थानान्तरण होने पर भारतीय कम्पनी विधि सेवा (आई सी एल एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेखा शाखा) अधिकारी श्री बी० के० बंसल ने दिनांक 22-3-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कम्पनी कार्य विभाग के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 2002

सं० ए-32011/3/2002-प्रशा०-I—कम्पनी कार्य विभाग के सचिव कम्पनी विधि बोर्ड के नियमित निजी सचिव, श्री ओ० पी० शर्मा को कम्पनी विधि बोर्ड में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 11 अप्रैल, 2001 के पूर्वाह्न से 10 अप्रैल, 2002 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. की गई तदर्थ नियुक्ति श्री ओ० पी० शर्मा की ग्रेड में नियमित नियुक्ति में कोई कानूनी दावा नहीं करेगी, न ही उनके

द्वारा की गई सेवा को वरिष्ठता के लिए या अगले उच्च ग्रेड में नियमित पदोन्नति के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

बी० एन० प्रसाद, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जून 2003

सं० पीएफजी/(630)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति श्री अब्दुल रशीद के० पी० को 17-01-2003 (पूर्वाह्न), से भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 की उपधारा (1)(1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (विधि शाखा) अधिकारी श्री अब्दुल रशीद के० पी० को 17-01-2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक शासकीय समापक, कर्नाटक, बंगलूर के कार्यालय में सहायक शासकीय समापक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(638)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति श्री बीनूधर मिश्रा की 23-10-2002 (पूर्वाह्न) से भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2 कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी श्री बीनूधर मिश्रा को 23-10-2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कम्पनी रजिस्ट्रार, पटना के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

सं० पीएफजी/(655)/2002-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा उनका चयन होने पर राष्ट्रपति, श्री एम० कल्लन को 18-10-2002 (अपराह्न) से भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) में नियुक्त करते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय कम्पनी विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी, श्री एम० कल्लन को 18-10-2002 के अपराह्न से अगले आदेशों तक कम्पनी रजिस्ट्रार, पांडिचेरी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2003

सं० 1/24/2003-ईपी (एपी iv)—राष्ट्रपति वाणिज्य विभाग के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव का स्तर) के पद पर श्री के० एस० मनी, आईएएस (राज० 76) को श्री अनिल स्वरूप, आईएएस (उ० प्र० : 81) के स्थान पर 18,400-22,400/- रुपए के वेतनमान में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करने हैं।

अनूप के० ठाकुर, संयुक्त सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2003

सं० 13/2003 (फा० सं० 2/2/2002/मा० सं० वि०-1/2227)—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित अधिकारियों को इस निदेशालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी (राजपत्रित समूह 'ख') (गैर के० सं० से०) नियुक्त करते हैं जो कि इस कार्यालय आदेश सं० 68/2003 दिनांक 16-6-2003 में दर्शाई गई तैनाती के स्थान पर पद का कार्यभार सम्भालने की तारीख से प्रभावी होगा :—

क्रम सं० अधिकारी का नाम

1. श्रीमती रीटा माहाना
2. श्री राजवीर शर्मा
3. श्री आर० सी० कालरा
4. श्री डी० के० तोमर
5. श्री के० जी० नायर
6. श्रीमती एस० थनाम
7. श्री टंक चन्द
8. श्री ए० जे० जे० पान्डीयर
9. श्री एन० वैद्यनाथन
10. श्री जे० मुरलीधरन

तरसेम लाल, संयुक्त महानिदेशक

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2003

सं० ए-19011/628/02-ई-1—औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री वी० के० मल्होत्रा, आई ए एस (उ० प्र० : 70) की भारतीय खाद्य निगम में प्रबन्ध निदेशक

के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने 2 मई, 2003 की पूर्वाह्न से पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ए० के० तनेजा, अपर सचिव

सं० ए-19011/644/2003-व्य०-1—राष्ट्रपति, श्री नरेश चतर्वेदी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल : 70) को दिनांक 12 मई 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

ए० के० तनेजा, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2003

सं० ए-12027/2/96/ई-IV/सी० डी० एन०—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के एस० ए० जी० स्तर के अधिकारी, श्री श्रवण निगम को 12-5-2003 (पूर्वाह्न) से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, के तहत आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में ह० 18,400-22,400/- के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० एम० सिंह, अपर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 जून 2003

सं० 1/4/उजस/98-प्रशा० I—उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति में प्रतिनियुक्ति पर श्री पी० आर० गुप्ता, लेखा अधिकारी वधित कार्यालय पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप दिनांक 10-6-2003 (पूर्वाह्न) से उन्हें उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

2. उनकी सेवाओं के प्रत्यावर्तन के कारण, श्री पी० आर० गुप्ता, लेखा अधिकारी का 11-6-2003 से 10-7-2003 तक 30 दिनों की अजित अवकाश मंजूर किया जाता है। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् श्री पी० आर० गुप्ता को आगामी दिशा-निर्देशों के लिए उप सचिव (प्रशासन), उर्वरक विभाग को रिपोर्ट करनी होगी।

एस० के० दास, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 9 जून 2003

सं० ए-38018/2/2003-प्रशा० I—राष्ट्रपति, श्री के० वी० श्रीनिवासन, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी' वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 30-4-2003 (अपराह्न) को

अधिकांशता की आयु पूर्ण होने पर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त करते हैं।

गुरमीत सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2003

संख्या 17013/23/2001 भा० व० सेवा-II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 25 फरवरी, 2003 को वर्ष 2001 और 2002 के लिए चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी, 2002 की पदोन्नत रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा 9 दिसम्बर 2002 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई सूची में राज्य वन सेवा अधिकारी के निम्नलिखित 10 सदस्यों के नाम शामिल हैं :—

2001 की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	ए० के० कापासी	20-01-1958
2.	एच० के० पांडे	21-03-1958
3.*	आई० एच० खान	25-10-1948
4.	ए० के० तिवारी	03-12-1958
5.	बी० एस० लाकड़ा	23-03-1959
6.	ओ० पी० यादव	07-08-1956

क्रम संख्या 3 के नाम को सूची में अस्थायी रूप में शामिल किया है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती।

2002 की चयन सूची

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	एस० एम० टी० तक्रवी	30-12-1948
1-ए*	आई० एच० खान	25-10-1948
2.	लीलाधर साहू	01-01-1958
3.	एस० एस० डी० बारगैया	26-04-1962
4.	जे० एस० कैलाशिया	23-07-1950

*क्रम संख्या 1-ए के नाम पर समिति द्वारा भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे उपबंध के अन्तर्गत विचार किया गया और सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ लम्बित अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2002

सं० 17013/13/2000-भा० व० सेवा II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य वन सेवा के श्री किवितो शोहे (जन्म तिथि : 16-09-1953) की वर्ष 2002 की चयन सूची के आधार पर 19-02-2002 से तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपविनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का नागालैंड संवर्ग आवंटित करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 अप्रैल 2003

सं० 17013/17/2000-भा० व० सेवा II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2000 की चयन सूची की तैयारी के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 की चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उपर्युक्त बैठक में तैयार की गई सूची को अनुमोदित कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने अब इस सूची का अनुमोदन कर दिया है जिसमें भा० व० सेवा संवर्ग के सिक्किम संवर्ग में 1 जनवरी, 2000 को उपलब्ध पदोन्नत रिक्ति को भरने के लिए सिक्किम राज्य वन सेवा के श्री एच० बी० शर्मा (जन्म तिथि 21-5-1950) का नाम शामिल है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 मई 2001

फा० सं० 18012/01/2003-भा० व० से०-II—केन्द्रीय सरकार भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम 1986 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित चार (4) प्रोन्नति अधिकारियों की उनके नाम के सामने दी तारीख से भारतीय वन सेवा में पुष्टि करती हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पुष्टि की तारीख
1.	के० पालानीसाम्य	11-5-2000
2.	के० एस० कृष्णन	11-5-2000
3.	शाहनवाज सरदार	4-2-2001
4.	एन० नागसाम्य	4-2-2001

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अप्रैल 2003

फा० सं० 12026/7/2001-भा० व० सेवा-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के 1969 बच के अधिकारी श्री विनोद ऋषि को इस मंत्रालय में 7 अप्रैल, 2003 अपराह्न से उनकी अधिवर्षिता आयु होने तक अर्थात् 31-12-2003 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अगर वन महानिदेशक (वन्यजीव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

नई दिल्ली 110003, दिनांक 14 मई 1003

फा सं० 17013/21/2002-भा० व० सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (प्रदीनति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य वन सेवा के अधोलिखित चार अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में वर्तमान रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का पश्चिम बंगाल संवर्ग आवंटित करते हैं :--

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री सुरेन्द्र नाथ पाल	16-3-1952
2.	श्री बिजन बिहारी मजुमदार	9-2-1948
3.	श्री कल्याण कुमार घोष	9-4-1950
4.	श्री गोपाल चन्द्र कजुरी	14-4-1956

जी० देवनानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2003

सं० 12012/11/99-पी-II-(.)-श्री एल० अनबारासु को एतद्द्वारा पहली अप्रैल, 2003 (पूर्वाहन) से 6500-10500 रुपए के वेतनमान में, पर्यावरण एवं वन मंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री एल० अनबारासु की नियुक्ति पर्यावरण एवं वन मंत्री के कार्यालय पर्यन्त उनकी इच्छा पर आधारित होगी।

श्री एल० अनबारासु पहली अप्रैल, 2003 (पूर्वाहन) से 6500 रुपए के वेतनमान में न्यूनतम वेतन पाएंगे।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 4 जून 2003

सं० ए 32012/2/2001-पी-II-(.)-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वर्ग "ग" के आशुलिपिक श्री राम मेहर सिंह थलोर की नियुक्ति तदर्थ आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27-5-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/10/2003-सी एस-II के द्वारा, "निजी सचिव" के रूप में 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 01-04-2003 से 30-6-2003 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

इस तदर्थ नियुक्ति के परिणामस्वरूप उक्त अधिकारी की नियमित प्रोन्नति का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी समय इस तदर्थ नियुक्त को रद्द करके अथवा जिस पद पर से अधिकारी की प्रोन्नति हुई थी उसी पद पर उन्हें प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2003

सं० ए 12025/36/2001-सी.एच.एच.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ० (श्रीमती) मीनाक्षी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II में परीवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 12-6-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में संवेदनाहारक के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

सं० ए० 12025/37/2002-सी० एच० एस०-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० हरीश कुमार शर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 में परीवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 21-10-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सक के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 6 जून 2003

सं० सी० 14011/17/97-सी० एच० एस०-1--डॉ० चंचल सिंह ने अपना त्यागपत्र मंजूर होने के परिणामस्वरूप 19-10-2001 के पूर्वाह्न से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है।

2. दिनांक 8-11-1993 से 19-10-2001 (पूर्वाह्न) की अवधि को अकार्य दिवस के रूप में समझा जाए।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 जून 2003

सं० ए० 38012/4/97-सी० एच० एस०-I-डॉ० ए० एस० छिलाना द्वारा अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 25-8-1998 के पूर्वाह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया गया, माना गया है।

दिनांक 4-2-1997 से 25-8-1998 (पूर्वाह्न) तक की अवधि अकार्य दिवस के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए 12025/30/2001-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० (श्रीमति) अंजलि गुप्ता को 7-4-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० (श्रीमती) अंजलि गुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/73/2001-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० विनोद कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में 28-12-2001 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० विनोद कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 जून 2003

सं० ए-39012/13/97-सी०एच०एस०-I-डॉ० एन०के० गुप्ता द्वारा अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 3-2-1999 के पूर्वाह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया माना गया है।

दिनांक 23-2-1990 से दिनांक 3-2-1999 (पूर्वाह्न) तक की अवधि अकार्य दिवस के रूप में मानी गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए० 44014/11/99-सी० एच० एस०-I-डा० सुधीर गुप्ता ने अपने तत्कालीन त्यागपत्र के स्वीकृत हो जाने के परिणामस्वरूप 6-9-99 (अपराह्न) के अपराह्न से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया ताकि वे तत्काल आमेलन के आधार पर ई० एस०आई० सी०, नई दिल्ली में विशेषज्ञ-ग्रेड-II के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सकें।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2003

सं० ए-32011/9/2003-स्था० I-संयुक्त समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर वर्ष 2001 की अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में उनके नामों के समावेशन के पश्चात् राष्ट्रपति उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के सी०एस०एस० काडर में 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में सी० एस०एस० काडर के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड IV अधिकारियों (सहायकों) को अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :

1. श्री घनश्याम कुमार 30-5-2003 (पूर्वाह्न)
2. श्री हेमन्त वर्मा 30-5-2003 (पूर्वाह्न)

बी० एम० सद्दी, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 03 जून 2003

सं० ए-32014/2/99-स्थापना-राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 09 दिसम्बर, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27-5-2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/10/2003-सीएस-2 के अनुसरण में, निम्नलिखित स्थायी वैयक्तिक सहायकों की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "क" तथा "ख" (विलयित) के पद पर स्थानापन्न रूप में रु० 6500-200-10500 (समूह "ख" राजपत्रित लिपिकीय) के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि तक या नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अधिकारियों के नाम	दिनांक से विस्तार	दिनांक तक
श्री के० एम० हरिगोविन्दन	01-03-2003	30-06-2003
	(पूर्वाह्न)	(अपराह्न)
श्री रघुवंश लाल	—वही—	—वही—
श्रीमती सरोज बाला बंद	—वही—	—वही—
श्रीमती पूनम सूद	—वही—	—वही—
श्री एम० एम० सेठी	—वही—	—वही—
श्रीमती वीणा ठक्कर	—वही—	—वही—
श्री के० सी० जैकब	—वही—	—वही—

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा यह उन्हें आधुनिक "क" तथा "ख" (बिलयित) ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण, पदोन्नति आदि का दावा करने का अधिकार नहीं सौंपता।

एल० सी० मेहरा, अवर चिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 मई 2003

सं० ए-39013/1/1996 प्रशा०-I—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री बी० रविन्द, कर्मचारी कोड सं० 3847, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, इन्दौर, में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 2 दिसम्बर 1995 अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जात है।

एल० एस० विश्वनाथन
उप निदेशक (प्रशा०)

सं० ए 39013/1/1996-प्रशा-I—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री सलिल सक्सेना, कर्मचारी कोड सं० 3240 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर, में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 19 जुलाई 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल० एस० विश्वनाथन
उप निदेशक (प्रशा०)

सं० ए 39013/1/1998-प्रशा-1—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री डी० पुतामबेकर, कर्मचारी कोड सं० 2121 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, दहोद, में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 2 जनवरी 1995 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल० एस० विश्वनाथन, उप निदेशक (प्रशा०)

दूर संचार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जून 2002

सं० 400-52/2002-एस०टी०जी०-III—दक्षिण दूर-संचार परियोजना, चेन्नई में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत भारतीय दूरसंचार सेवा समूह (क) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री आर० श्रीधरन (स्टाफ सं० 8117) का 2-5-2003 को देहान्त हो गया है।

डा० बिसेट बारला, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं० पीएफ-348/प्रशा०-I/IV—अरब सेटेललाइट कम्युनिकेशन्स आर्गनाइजेशन (अरब सैट) रियाद सऊदी अरब राज्य में प्रीक्वेन्सी समन्वय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति के लिए चयन होने पर बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध, दूरसंचार विभाग में सहायक बेतार सलाहकार श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना की 31-12-2003 तक की अवधि के लिए विदेश सेवा के निबंधन और शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए 18 फरवरी, 2003 के अपराह्न से कार्य मुक्त कर दिया गया है।

यह इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2003 की सम-संख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

पी० मुरलीधरन, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

दिनांक 21 मई 2003

सं० 41-13/2000-प्रशा०-I/IV—राष्ट्रपति, बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध, दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित सहायक बेतार सलाहकारों को इसी विभाग में, तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में उप बेतार सलाहकार/उपनिदेशक (डब्ल्यूएम) के पदों पर उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, अथवा आगासी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करना जारी रखने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

क्र०सं०	नाम और पदनाम	से	तक
1.	श्री बी० बी० सिंह	9-1-2003	8-7-2003
2.	श्री आर० बी० सिंह	19-1-2003	18-7-2003

पी० मुरलीधरन, अवर सचिव (प्रशा०-IV)

सं० 41-06/2001-प्रशासन-I/IV—राष्ट्रपति जी दूर-संचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय विंग के सहायक बेतार सलाहकार श्री दीनबन्धु दास की कतार दूरसंचार, दोहा, कतार में इंजीनियर आवृत्ति प्रबंधन के बेतार विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 20-08-2001 की समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित अवधि के क्रम में दिनांक 22-08-2003 से 30-06-2005 तक बढ़ाए जाने की मंजूरी प्रदान करते हैं।

2. इस कार्यालय के दिनांक 25-5-2001 के आदेशों में उल्लिखित अवधि तदनुसार आशोधित मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति की अन्य सभी निबन्धन और शर्तें यथावत रहेंगी।

पी० मुरलीधरन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अप्रैल 2003

सं० पीएफ-5167/प्रशा०-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री टी० बालास्वामी, अभियंता बेतार आयोजना व

राष्ट्रिय स्कंध, दूरसंचार-विभाग 30-अप्रैल, 2003 अपराह्न से
गर्कारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

मन मोहन सिंह, अवर सचिव
(प्रशा०-I)

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 जून 2003

सं० 100/30/2002-एसटीजी-I—राष्ट्रपति जी केन्द्रीय
सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली 1965 के नियम 5
के उप-नियम (I) के अनुसरण में, भारतीय दूरसंचार सेवा
समूह-क में कनिष्ठ समयमान के अधिकारी के बतौर कार्यरत
श्री राजेश खंडेलवाल को यह नोटिस देते हैं कि यथास्थिति इस
नोटिस के तामील होने की तारीख से या उन्हें इस नोटिस की
प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति पर
उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

यह नोटिस राष्ट्रपति जी के आदेश से तथा उनकी ओर से
जारी किया जाता है।

राम अवतार, अवर सचिव (एसजीटी)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2003

सं० ई आर बी-I/2003/2/44—श्री आर० शिवदासन,
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल लेखा सेवा को 4-6-2003
के पूर्वाह्न से सलाहकार (लेखा सुधार), रेलवे बोर्ड के रूप में
22400-24500/- रुपये के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० जारूहार
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 11 जून 2003

सं० ई(जीपी) 99/1/49—राष्ट्रपति जी० भारतीय रेल
सिविल इंजीनियरी विभाग के ग्रुप "बी" अधिकारी श्री सुशील
कुमार दास (अ० जा०), पूर्व रेलवे, की 3-8-2000 से
भारतीय रेल सिविल इंजीनियर सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में
मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

आर० आर० जारूहार
सचिव, रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2003

सं० 9/2003 फा० सं 1/7/1999-प्रशा०-II—राष्ट्रपति,
भारतीय प्रशासनिक सेवा (हर्षियाणा-1986), के श्री संजीव
कौशल को निदेशक स्तर के पद पर विद्युत राज्य मंत्री
(श्रीमती जयवंती महता के निजी सचिव के रूप में दिनांक
5 जून 2003 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि के लिए
अथवा विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते
रहने तक के लिए या अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले
हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विकास चन्द्र काजला, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(प्रकाशन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2003

सं० ए-32014/1/03-प्रशा०-I—पदोन्नत किए जाने के
फलस्वरूप इस विभाग के श्री बी० एस० शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार
को राष्ट्रपति, लेखा अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित पद के रूप
में 7450-225-11500/- रु० के वेतनमान में नियमित
आधार पर दिनांक 22 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से प्रकाशन
विभाग में नियुक्त करते हैं।

एम० के० त्रेहन, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 10th June 2003

No. A. 36011/23/01-Adm.—Shri G. Sivakumar relinquished the charge of the post of Director (Technology Interface), President's Secretariat, with effect from 5th June, 2003 (afternoon).

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

No. A. 36011/47/01-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. D. Belwal as Private Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 13th May, 2003 on co-terminus basis or till the pleasure of the President.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd June 2003

No. A-19011/1/2003-Ad.I.—Consequent upon his appointment as Secretary, Ministry of Shipping, Shri D. T. Joseph, IAS (MH : 68) has relinquished the charge of the post of Secretary (Coordination and Public Grievances), Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 2nd June, 2003.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th June 2003

No. A-12022/2/2002-Admn.IV.—In Pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 13015/1/2002-IES dated 26-05-2003, Shri Ashish Kumar, a NFSG Officer of IES assumed charge as Director in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) at Lucknow w.e.f. the forenoon of 28th May, 2003.

S. A. RAHIM, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME
IMPLEMENTATION

New Delhi, the 5th June 2003

No. 12018/1/2003-ISS.—On attaining the age of superannuation, the following officers of Indian Statistical Service, retired from service on 31-05-2003 (A/N).

Sl. No., Name and Designation & Place of Posting

S/Shri

1. Shri L. L. Srivastava, STS of ISS. Dy. Director, NSSO, FOD, M/o Statistics & P. I. New Delhi.
2. Shri Joy Martin, JTS of ISS, Assistant Director, NSSO, FOD, Kozikode (R.O.).

BHARATI DATTA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th May 2003

F. No. A. 12026/1/2003-Admn.IV(LA).—The competent authority in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs is pleased to appoint Ms. Akali V. Konghay, Assistant (Legal) in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice by transfer on deputation to officiate as Assistant Registrar Appellate Tribunal for Foreign Exchange, for a period of three years with effect from 14-05-2003 or until further orders, whichever is earlier.

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

F. No. A. 38012/2/2003-Admn.IV(LA).—On attaining the age of 65 years, Justice (Retd.) Ravinandan Sahay, Chairperson, Appellate Tribunal for Foreign Exchange stands retired from Government service with effect from the afternoon of 20th May, 2003 in accordance with rule 9 of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange (Recruitment, Salary and Allowances and Other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2000.

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 9th June 2003

No. K. 13020/1/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Brij Lal Bhat to be an Additional Judge of the High Court of Jammu and Kashmir for a period from June 11 to August 7, 2003.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 28th May 2003

No. 08 of 2003 (F. No. A-38012/6/2003-AD-II).—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri V. K. Gupta, Deputy Commissioner from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 01-06-2003 (F/N).

K. KIPGEN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 4th June 2003

No. A-12011/4/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ramdutt Masiwal as Director (OL) in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- in Department of Economic Affairs, Ministry of Finance w.e.f. 8-5-2003 (F/N), until further orders.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 9th June 2003

No. 6/36/00-DRT (Part).—The President is pleased to extend the deputation term of Shri R. Ganesh Voltair, Recovery Officer in the office of DRT, Coimbatore for the period from 7-12-2002 to 6-12-2003 on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 or until further orders, whichever is earlier.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

The 11th June 2003

No. 29/2/95.DRT.—Consequent upon attaining the age of superannuation Sh. A. S. Choudhary Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Allahabad will retire on 17-6-2003 (A/N). In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Sh. Ram Prakash, Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Lucknow is authorized to look after the charge of the post of Presiding Officer of DRT, Allahabad and DRT, Jabalpur in addition to his own duties with effect from 17-6-2003 (A/N) without any additional remuneration and until further orders.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 12th February 2002

No. PFG (833)/2002-Admn. I.—Consequent on his transfer from the post of Registrar of Companies, Hyderabad vide this Department's Officer Order No. A-32011/1/2000-Admn. II dated 23-01-2002, Shri K. L. Kamboj, a Junior Administrative Grade Officer of Indian Company Law Service (ICLS) has assumed charge of the post of Joint Director (Inspection) at the Headquarters of the Department of Company Affairs, with effect from the forenoon of 07-02-2002 and until further orders.

B. N. PRASAD, Under Secy.

The 4th April 2002

No. PFG (835)/2002-Admn. I.—Consequent on his transfer from the post of Registrar of Companies, Gwalior vide this Department's Office Order No. A-32011/1/2000-Admn. II dated 23-01-2002, Shri B. K. Bansal, a Junior Administrative Grade (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service (ICLS) assumed charge of the post of Joint Director (Inspection) at the Headquarters of the Department of Company Affairs with effect from the forenoon of 22-03-2002 and until further orders.

B. N. PRASAD, Under Secy.

The 29th April 2002

No. A-32011/3/2002-Ad.I.—The Secretary, Department of Company Affairs, is pleased to appoint Shri O. P. Sharma, a regular Private Secretary of the Company Law Board, as Senior Private Secretary in the Company Law Board on ad hoc basis for a period of one year with effect from the forenoon of 11th April 2001 to 10th April 2002.

2. The ad hoc appointment made herein will not legally confer on Shri O. P. Sharma any claim whatsoever for regular appointment in the grade, nor will the service rendered by him count for the purpose of seniority or for regular promotion to the next higher grade.

B. N. PRASAD, Under Secy.

New Delhi, the 12th June 2003

No. PFG(630)/2002-AD.II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Abdul Resheed K. P. in the Junior Time Scale (Legal Branch) of Indian Company Law Service with effect from 17-01-2003 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (1) (1-A) of Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Abdul Rasheed K. P., a Junior Time Scale (Legal Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Official Liquidator in the Office of Official Liquidator, Karnataka, Bangalore with effect from the forenoon of 17-01-2003, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(638)/2002-AD.II.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri Benudhar Mishra in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 23-10-2002 (FN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Benudhar Mishra, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies, Patna with effect from the forenoon of 23-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

No. PFG(655)/2002-AD.I.—On his selection through the Union Public Service Commission by direct recruitment, the President is pleased to appoint Shri M. Kannan in the Junior Time Scale (Accounts Branch) of Indian Company Law Service with effect from 18-10-2002 (AN).

2. In exercise of powers conferred by sub-Section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri M. Kannan, a Junior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service to officiate as (Registrar of Companies, Pondicherry with effect from the afternoon of 18-10-2002, until further orders.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 13th June 2003

No. 1/24/2003-EP(Agri.IV).—The President is pleased to appoint Shri K. S. Money, IAS (RJ : 76) as Chairman (Joint Secretary level) of Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA), under the Department of Commerce, in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- for a normal tenure of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier vice Shri Anil Swarup, IAS (UP : 81).

ANUP K. THAKUR, Jt. Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 16th June 2003

No. 13/2003/(2/2/2002/HRD-I/2227).—Consequent on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Director General of Foreign Trade is pleased to appoint the following officers as Foreign Trade Development officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) in this Directorate with effect from the date of joining to the post in the place of posting indicated in this Office Order No. 68/2003 dated 16-06-2003 :—

Sl. No., Name of Officer

1. Smt. Rita Mahna
2. Shri Rajbir Sharma
3. Shri R. C. Kalra
4. Shri D. K. Tomar
5. Shri K. G. Nair
6. Smt. S. Thangam
7. Shri Tek Chand
8. Shri A. J. J. Pondithar
9. Shri N. Vaidyanathan
10. Shri J. Murlidharan

TARSEM LAL, Jt. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 12th May 2003

No. A-19011/644/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Naresh Chaturvedi, IAS (WB : 70) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 12th May, 2003, until further orders.

A. K. TANEJA, Under Secy.

No. A-19011/628/02-E.I.—Consequent on his appointment as Managing Director, Food Corporation of India, Shri V. K. Malhotra, IAS (UP : 70), Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, relinquished charge of the post with effect from the forenoon of 12th May, 2003.

A. K. TANEJA, Under Secy.

New Delhi, the 14th May 2003

No. A-12027/2/96-E.IV/CDN.—The President is pleased to appoint Shri Shrawan Nigam, SAG level officer of Indian Economic Service as Economic Adviser in the Office of the Economic Adviser under the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in the pay scale of Rs. 18400—22400 with effect from 12-05-2003 (Forenoon).

G. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

OFFICE OF FERTILIZER INDUSTRY COORDINATION COMMITTEE

New Delhi, the 10th June 2003

No. 1/4/FICC/98-Admn.—Consequent upon completion of his extended tenure, Shri P. R. Gupta, Accounts Officer, on deputation in the office of Fertilizer Industry Coordination Committee, an attached office of the Department of Fertilizers is hereby relieved of his duties w.e.f. 10-6-2003 (A/N).

2. In conjunction with his repatriation, Shri P. R. Gupta, Accounts Officer has been sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 11-6-2003 to 10-7-2003. After the expiry of leave, Shri P. R. Gupta is advised to report to Deputy Secretary (Admn.), Department of Fertilizers for further instructions.

S. K. DAS, Director (Admn.)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 6th May 2003

No. A-38018/02/2003-Admn.—The President is pleased to retire Sh. K. V. Srinivasan, Adviser/Scientist 'G' Department of Scientific and Industrial Research from the Government service on attaining the age of superannuation on 30-04-2003 (A/N).

GURMIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110 003, the 27th February 2003

No. 17013/23/2001-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forests Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 25th February, 2003 has approved the Select List for the year 2001 & 2002 containing the names of following Ten members of State Forest Service Officer of Chhattisgarh, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 9th December, 2002 for filling up promotion vacancies in the Chhattisgarh

cadre of the Indian Forest Service as on 1st January, 2001 & 1st January, 2002 :

Select List of 2001 :

S. No., Name & Date of Birth

(S/Shri)

1. A. H. Kapasi—20-01-1958
2. H. K. Pandey—21-03-1958
- *3. I. H. Khan—25-10-1948
4. A. K. Tiwari—03-12-1958
5. V. S. Lakra—23-03-1950
6. O. P. Yadav—07-08-1956

*The name at Sl. No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings by the State Government.

Select List of 2002 :

S. No., Name & Date of Birth

(S/Shri)

1. S. M. T. Naqvi—30-12-1948
- 1-A* I. H. Khan—25-10-1948
2. Liladhar Sahu—01-01-1958
3. S. S. D. Bargaiya—26-04-1962
4. J. S. Kailashiya—23-07-1950

*The name at Sl. No. 1-A has been considered by the Committee under the second proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations 1966 and is included in the list provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against him by the State Government.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 12th March 2003

No. 17013/13/2000-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Kivito Shohe (Date of Birth : 16-09-1953) of the State Forest Service of Nagaland, to the Indian Forest Service with effect from 19-02-2003 on the basis of the Select List for 2002 and to allocate him to the Nagaland Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 3rd April 2003

No. 17013/17/2000-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (4) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for the year 2000 was held on 24th December, 2002. Union Public Service Commission have now approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of Sh. H. B. Sharma (Date of Birth 21-5-1950) member of the State Forest Service of Sikkim towards filling up of promotion vacancy available in Sikkim Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2000.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 29th May 2003

F. No. 18012/01/2003-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following Four (4) promotee officers belonging to the Tamil Nadu cadre, in the Indian Forest Service, from the dates mentioned against their names :

S. No., Name of the Officer and Date of Confirmation

S/Shri

1. K. Palanisamy—11-05-2000.
2. K. S. Krishnan—11-05-2000.
3. Shah Nawas Sardar—04-02-2001.
4. G. Nagasamy—04-02-2001.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 8th April 2003

No. A. 12026/7/2001-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Rishi, an officer belonging to the 1969 batch of West Bengal cadre of the Indian Forest Service, to the post of Additional Director General of Forests (Wild Life) in this Ministry with effect from the afternoon of 7th April, 2003 until the date of his superannuation i.e. 31-12-2006 or until further orders, whichever is earlier.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 14th May 2003

F. No. 17013/21/2002-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the undermentioned four officers of the State Forest Service of West Bengal, to the Indian Forest Service against existing vacancies and to allocate them to the West Bengal Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No., Name of the Officer & Date of Birth

1. Sh. Sourindra Nath Pal—16-03-1952
2. Sh. Bijan Behari Majumdar—09-02-1948
3. Sh. B. Kalayan Kumar Ghosh—09-04-1950
4. Sh. Gopal Chandra Kajuri—14-04-1956

G. DEVNANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 13th May 2003

No. A-12012/11/99-P.II(.).—Shri L. Anbarasu is hereby appointed as Assistant Private Secretary to Minister for Environment and Forest in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 w.e.f. 1st April, 2003 (F/N).

The appointment of Shri L. Anbarasu, will be on co-terminus basis with and at the pleasure of the Minister for Environment and Forests.

Shri Anbarasu will draw pay at the minimum of the scale i.e. Rs. 6500/- w.e.f. 1st April, 2003 (F/N).

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

The 4th June 2003

No. A-32012/2/2001-P.II(.).—The ad-hoc appointment of Shri Ram Mehar Singh Thakor, Stenographer Grade 'C' of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as "Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/-" is extended with approval of the competent authority and the Department of Personnel and Training conveyed vide their OM No. 5/10/2003-CS.II dated 27-05-2003 from 01-04-2003 to 30-06-2003 or till the regular incumbents become available, whichever event takes place earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right upon the above officers for regular promotion. The Government reserves the right to cancel at any time the ad-hoc appointments and to revert the officers to the post from which they were promoted.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 11th June 2003

No. A. 12025/36/2001-CHS.IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Meenakshi to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post her as Anaesthetist at Safdarjung Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of the 12-6-2002 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

No. A. 12025/37/2002-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Harish Kumar Sharma to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as Plastic Surgeon at Safdarjung Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of the 21-10-2002 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 6th June 2003

No. C. 14011/17/97-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his resignation, Dr. Chanchal Singh is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 19-10-2001.

2. The Period from 8-11-1993 to 19-10-2001 (forenoon) has been treated as "DIES-NON".

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 10th June 2003

No. A. 38012/4/97-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. A. S. Chilana, is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 25-8-1998.

The period from 4-2-1997 to 25-8-1998 (F/N) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/30/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Anjali Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 7th April 2003 until further orders. Dr. (Smt.) Anjali Gupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/73/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Binod Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 28th December, 2001 until further orders. Dr. Binod Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11th June 2003

No. A. 39012/13/97-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. N. K. Gupta, is deemed to have relinquished the charge of the post of Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 3-2-1999.

The period from 23-2-1990 to 3-2-1999 (F/N) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 44014/11/99-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his technical resignation Dr. Sudhir Gupta, relinquished the charge of the post of Chief Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the afternoon of 6-9-99 (A/N) to join as Specialist Gr. II in Employees State Insurance Corporation, New Delhi on immediate absorption basis.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 2nd June 2003

No. A. 32011/9/2003-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the select list of Section Officers for the year 2001 on the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2001, the President is pleased to appoint the following permanent Grade IV Officers (Assistants) of the CSS cadre as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) from the dates mentioned against each :—

1. Shri Ghanshyam Kumar—30-05-2003 (F/N)
2. Shri Hemant Verma—30-05-2003 (F/N)

B. M. SADDI, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 3rd June 2003

No. A-32014/2/99-Estt.—In continuation of Notification of even number dated 09th December, 2002 of this Ministry and in pursuance of O.M. No. 5/10/2003-CS.II dated 27-5-2003 of Department of Personnel and Training, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the under mentioned substantive Personal Assistants to officiate in the post of Grade 'A&B' (merged) of the Central Secretariat Stenographers Service Cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 (Group 'B' Gazetted, Ministerial) for the period mentioned against

each or till regular candidates becomes available or until further orders, whichever is earlier.

S. No., Name of the Officer, Date of extension w.e.f. & Extension upto

1. Shri K. M. Harigovindan, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
2. Shri Raghuvansh Lal, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
3. Smt. Saroj Bala Vaid, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
4. Smt. Poonam Sood, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
5. Shri M. M. Sethi, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
6. Smt. Veena Thakkar, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)
7. Shri K. C. Jacob, 01-03-2003 (Forenoon)—30-6-2003 (Afternoon)

2. The appointment is purely temporary and will not confer upon them any right to claim for regular appointment, seniority, confirmation, promotion etc. in the grade of Steno 'A&B' (merged).

L. C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 20th May 2003

No. A-39013/1/96-Admn.I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri B. Ravindra, Emp-Code-3847, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', National Informatics Centre, Indore, with effect from the afternoon of 2nd December 1995 and he is relieved of his duties from the same day.

L. S. VISWANATHAN, Dy. Director (Admn.)

No. A-39013/1/96-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Salil Saxena, Emp-Code-3240, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Gwalior, with effect from the afternoon of 19th July 1996 and he is relieved of his duties from the same day.

L. S. VISWANATHAN, Dy. Director (Admn.)

No. A-39013/1/98-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri D. Puntambekar, Emp-Code-2121, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Dhar with effect from the afternoon of 2nd January 1995 and he is relieved of his duties from the same day.

L. S. VISWANATHAN, Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 03rd June 2003

No. 400-52/2002-STG-III.—Shri R. Sridharan (Staff No. 8117), an officer of Junior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as Deputy General Manager in Southern Telecom. Project, Chennai expired on 02-5-2003.

DR. VINCENT BARLA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 25th April 2003

No. PF-348/Admn.I/IV.—On selection for appointment as Frequency Coordination Expert in Arab Satellite Communications Organisation (ARABSAT), Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Shri Rajender Kumar Saxena, Assistant Wireless Adviser, Wireless Planning and Co-ordination Wing, Department of Telecommunications has been relieved of his duties with effect from the afternoon of 18th February, 2003 for proceeding on deputation on foreign service terms and conditions for the period upto 31-12-2003.

2. This issues in supersession of this Department's notification of even number dated 17th February, 2003.

P. MURALEEDHARAN, Under Secy. (Admn.IV)

New Delhi-110 001, the 21st May 2003

No. 41—13/2000-Admn.I/IV.—The President is pleased to permit the following Assistant Wireless Advisers in the Wireless Planning & Coordination Wing, Department of Telecommunications to continue to officiate in the posts of Deputy Wireless Advisers/Deputy Director (WM) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the same Department, on ad-hoc basis, for the periods mentioned against their names or till regular incumbents assume charge of the posts, or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No. Name & Designation, From, To

- (1) Shri V. V. Singh 09-01-2003, 08-07-2003.
- (2) Shri R. B. Singh 19-01-2003, 18-07-2003.

N. MUKHERJEE, Under Secy. (Admn.IV)

No. 41—06/2001-Admn.I/IV.—The President is pleased to sanction extension of the period of foreign service deputation of Shri Dinabandhu Das, Assistant Wireless Adviser, Wireless Planning and Coordination Wing, Department of Telecommunications to Qatar Telecom, Doha, Qatar as Engineer Frequency Management from 22-08-2003 to 30-06-2005, in continuation of the period mentioned in the notification of even number dated 20-08-2001.

2. The period of deputation mentioned in this office orders dated 25-09-2001 stands modified accordingly. All other terms and conditions of the deputation shall remain unchanged.

N. MUKHERJEE, Under Secy. (Admn.IV)

New Delhi-110 001, the 28th April 2003

No. PF-5167/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri T. Balaswamy, Engineer, W.P.C. Wing, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the after the afternoon of 30th April, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy. (Admn.I)

New Delhi-110001, the 11th June 2003

No. 100/30/2002-STG-I.—In pursuance of sub-rule (1) of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, the President hereby gives notice to Shri Rajesh Khandelwal, an officer of Junior Time Scale of Indian Telecommunications Service Group-A that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or, as the case may be, tendered to him.

By order and in the name of the President

RAM AUTAR, Under Secy. (SGT)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th June 2003

No. ERB-I/2003/2/44.—Shri R. Sivadasan, SAG/IRAS, is appointed to Grade Rs. 22400—24500/- as Adviser (Accounting Reforms), Railway Board with effect from the forenoon of 04-06-03.

R. R. JARUHAR, Secy. Railway Board

The 11th June 2003

No. E(GP)99/1/49.—The President is pleased to approve of Shri Sushil Kumar Das (SC), a Group 'B' officer Civil Engg. Deptt. of Eastern Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 3rd August, 2000 on that Railway.

R. R. JARUHAR, Secy. Railway Board

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 6th June 2003

No. 9/2003 F. No. 1/7/1999-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kaushal, IAS (HY : 1986), as Private Secretary to the Minister of State for Power (Smt. Jayawanti Mehta), at the level of Director for a period of five years' with effect from the afternoon of the 5th June, 2003 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister of State for Power or until further orders, whichever event occurs the earliest.

V. C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING (PUBLICATIONS DIVISION)

New Delhi-1, the 7th May 2003

No. A-32014/1/03-Admn.I.—Consequent upon his promotion, the President is pleased to appoint Shri B. S. Sharma, Senior Accountant of this Division as Accounts Officer (a Group 'B', Gazetted post) in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- on a regular basis with effect from the forenoon of 22nd April, 2003 in the Publications Division.

M. K. TREHAN, Jt. Director (Admn.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित
पद प्रकाशन नियंत्रक. दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003